

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 03.10.2021

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेढ करोड रूपये कीमत की 1.5 किलोग्राम (फाइन क्वालिटी) की अफीम व एक लक्सरी कार व अवैध असलहा सहित अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 02.10.2021 को श्री अरविन्द सिंह चौहान थानाध्यक्ष थाना जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नवादा मोड से बनखण्डी पुलिया पक्का मार्ग से ग्राम अंगरौली चक मार्ग गैस टावर के पास कच्चे रास्ते पर समय करीब रात्रि 09.50 बजे अभियुक्त सददाम पुत्र मन्गे निवासी ग्राम मौजमपुर थाना हजरतपुर जिला बदायूं हाल निवासी ग्राम कादरवाडी थाना कादरचौक जिला बदायूं को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अफीम व एक कार Swift Dzire न0 DL 8 C AD 0173 रंग सफेद बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 395/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम व मु0अ0स0 396/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम सददाम उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सददाम पुत्र मन्गे निवासी ग्राम मौजमपुर थाना हजरतपुर जिला बदायूं हाल निवासी ग्राम कादरवाडी थाना कादरचौक जिला बदायूं

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 किलो 500 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम (अंतरराज्यीय_कीमत 01 करोड 50 लाख रूपये)
2. 01 कार Swift Dzire न0 DL 8 C AD 0173 रंग सफेद
3. 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 395/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 396/2021 धारा 8/18 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0, 405/2011 धारा 147,148,363,366,357,344 भादवि थाना हजरतपुर जिला बदायूं

पूछताछ विवरण:-

प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्त सददाम ने बताया कि मैं अपनी Swift Dzire गाडी न0 DL 8 C AD 0173 से करीब एक सप्ताह पूर्व हजारीबाग झारखण्ड राज्य से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर लाया था जिसको मैं अपनी गाडी में रखकर बरेली के आसपास अधिक दामों में बेचने के लिए ले जा रहा था आज आपने मुझे मय गाडी मय अफीम व एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष अरविन्द सिंह चौहान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1814 अवधेश पाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1821 नासिर खान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2306 गौरव तोमर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर